

Print

National Testing Agency

Question Paper Name :	MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr 25th March 2021 Shift 1
Subject Name :	MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr
Creation Date :	2021-03-25 13:44:18
Duration :	180
Number of Questions :	37
Total Marks :	100
Display Marks:	Yes

MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr

Group Number :	1
Group Id :	864351123
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	120
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	100
Is this Group for Examiner? :	No

MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr-1

Section Id :	864351533
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	20
Number of Questions to be attempted :	20
Section Marks :	20
Mark As Answered Required? :	Yes
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	864351577
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 86435110645 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Number of stages in translation process proposed by Translation thinker Nida are:

1. Four
2. Five
3. Two
4. Three

Options :

- 86435134807. 1
- 86435134808. 2
- 86435134809. 3
- 86435134810. 4

Question Number : 1 Question Id : 86435110645 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अनुवाद विज्ञानी नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं?

1. चार
2. पांच
3. दो
4. तीन

Options :

- 86435134807. 1
- 86435134808. 2
- 86435134809. 3
- 86435134810. 4

Question Number : 2 Question Id : 86435110646 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Generally, the method used in Translating officialies (Administrative Text) is:

- 1. Figurative
- 2. Emotive
- 3. Referential
- 4. Review

Options :

- 86435134811. 1
- 86435134812. 2
- 86435134813. 3
- 86435134814. 4

Question Number : 2 Question Id : 86435110646 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कार्यालयी साहित्य का अनुवाद अधिकतर किस शैली में होता है?

- 1. लक्षणात्मक
- 2. व्यंजनात्मक
- 3. अभिधात्मक
- 4. समीक्षात्मक

Options :

- 86435134811. 1
- 86435134812. 2

86435134813. 3

86435134814. 4

Question Number : 3 Question Id : 86435110647 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Vetting is which of the following stages in Translation Process?

1. First
2. Last
3. Middle
4. Post-publishing

Options :

86435134815. 1

86435134816. 2

86435134817. 3

86435134818. 4

Question Number : 3 Question Id : 86435110647 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पुनरीक्षण (vetting) अनुवाद प्रक्रिया का कौन-सा चरण है?

1. प्रथम
2. अंतिम
3. मध्य
4. प्रकाशनोत्तर

Options :

86435134815. 1

86435134816. 2

86435134817. 3

86435134818. 4

Question Number : 4 Question Id : 86435110648 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Close examination and comprehension stages, belong to:

1. Vetting
2. Evaluation
3. Review
4. Editing

Options :

86435134819. 1
86435134820. 2
86435134821. 3
86435134822. 4

Question Number : 4 Question Id : 86435110648 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

क्लोज़ परीक्षण और बोधन, अनुवाद में किसके मापन-आधार हैं?

1. पुनरीक्षण
2. मूल्यांकन
3. समीक्षा
4. संपादन

Options :

86435134819. 1
86435134820. 2
86435134821. 3
86435134822. 4

Question Number : 5 Question Id : 86435110649 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'A Text book of Translation' is written by:

1. Peter Newmark
2. George Steiner
3. J.C. Catford
4. M. Halliday

Options :

86435134823. 1
86435134824. 2
86435134825. 3
86435134826. 4

Question Number : 5 Question Id : 86435110649 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'A Text book of Translation' अनुवाद विषय पर किसकी लिखी कृति है?

1. पीटर न्यूमार्क
2. जार्ज स्टेनर
3. जे.सी. कैटफर्ड
4. एम. हैलिडे

Options :

86435134823. 1
86435134824. 2
86435134825. 3
86435134826. 4

Question Number : 6 Question Id : 86435110650 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'Nirvachan' or Interpretation is also known as:

1. संक्षिप्तानुवाद
2. व्याख्या
3. आशु अनुवाद
4. संभाषण

Options :

86435134827. 1
86435134828. 2
86435134829. 3
86435134830. 4

Question Number : 6 Question Id : 86435110650 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निर्वचन को अक्सर इस नाम से भी जाना जाता है-

1. संक्षिप्तानुवाद
2. व्याख्या
3. आशु अनुवाद
4. संभाषण

Options :

86435134827. 1
86435134828. 2
86435134829. 3
86435134830. 4

Question Number : 7 Question Id : 86435110651 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Saranuvad (Gist Translation) relates to which of the following in source text?

1. Central idea
2. Abridged form
3. Transliteration
4. Detailed idea

Options :

86435134831. 1
86435134832. 2
86435134833. 3
86435134834. 4

Question Number : 7 Question Id : 86435110651 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सारानुवाद मूल पाठ का-

1. केन्द्रीय भाव होता है
2. केवल संक्षेपण होता है
3. लिप्यंतरण होता है
4. विस्तृत विवरण होता है

Options :

86435134831. 1
86435134832. 2
86435134833. 3
86435134834. 4

Question Number : 8 Question Id : 86435110652 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The most common method of translating advertisement is:

1. Word by word Translation
2. Complete Translation
3. Creative Translation
4. Partial Translation

Options :

- 86435134835. 1
- 86435134836. 2
- 86435134837. 3
- 86435134838. 4

Question Number : 8 Question Id : 86435110652 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

विज्ञापन के अनुवाद की सर्वाधिक अनुकूल पद्धति है-

1. शब्दशः अनुवाद
2. पूर्णानुवाद
3. अनुसृजनात्मक अनुवाद
4. आंशिक अनुवाद

Options :

- 86435134835. 1
- 86435134836. 2
- 86435134837. 3
- 86435134838. 4

Question Number : 9 Question Id : 86435110653 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'In fact he is an old hand', will be translated into Hindi as:

1. वास्तव में वह एक पुराना हाथ है
2. वास्तव में वह एक एक वृद्ध है
3. वास्तव में वह एक अक्षम व्यक्ति है
4. वास्तव में वह एक अनुभवी व्यक्ति है

Options :

86435134839. 1

86435134840. 2

86435134841. 3

86435134842. 4

Question Number : 9 Question Id : 86435110653 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'In fact he is an old hand' का हिन्दी अनुवाद होगा-

1. वास्तव में वह एक पुराना हाथ है
2. वास्तव में वह एक वृद्ध है
3. वास्तव में वह एक अक्षम व्यक्ति है
4. वास्तव में वह एक अनुभवी व्यक्ति है

Options :

86435134839. 1

86435134840. 2

86435134841. 3

86435134842. 4

Question Number : 10 Question Id : 86435110654 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

For screen play, the story/original text is generally:

1. Translated
2. Adapted
3. Re-created
4. Assimilated

Options :

- 86435134843. 1
- 86435134844. 2
- 86435134845. 3
- 86435134846. 4

Question Number : 10 Question Id : 86435110654 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पटकथा के लिए सामान्यतः मूल पाठ/कथा-कहानी आदि का-

1. अनुवाद होता है
2. रूपांतरण होता है
3. अनुसृजन होता है
4. समावेशन होता है

Options :

- 86435134843. 1
- 86435134844. 2
- 86435134845. 3
- 86435134846. 4

Question Number : 11 Question Id : 86435110655 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In broad sense of Translation, dubbing and sub-titling are also known as:

1. Audio visual translation
2. Voice over
3. Re-cast
4. Appropriation

Options :

- 86435134847. 1
- 86435134848. 2
- 86435134849. 3
- 86435134850. 4

Question Number : 11 Question Id : 86435110655 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

डबिंग और सबटाइटलिंग को अनुवाद के व्यापक सन्दर्भ में इस नाम से भी जाना जाता है-

1. दृश्य-श्रव्य अनुवाद
2. वॉइस ओवर
3. री-कास्ट
4. अनुकूलन

Options :

- 86435134847. 1
- 86435134848. 2
- 86435134849. 3
- 86435134850. 4

Question Number : 12 Question Id : 86435110656 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The types of Inter relationship between Man and machine are:

1. Three
2. Four
3. Two
4. Five

Options :

- 86435134851. 1
- 86435134852. 2
- 86435134853. 3
- 86435134854. 4

Question Number : 12 Question Id : 86435110656 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मानव तथा मशीन के अंतःसंबंध के अंतर्गत अनुवाद के कितने प्रकार माने गए हैं?

1. तीन
2. चार
3. दो
4. पाँच

Options :

- 86435134851. 1
- 86435134852. 2
- 86435134853. 3
- 86435134854. 4

Question Number : 13 Question Id : 86435110657 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In terms of Machine Translation, NLP means:

1. Numerative data
2. Natural Language Processing
3. National Language Processing
4. Neutral Language Process

Options :

- 86435134855. 1
- 86435134856. 2
- 86435134857. 3
- 86435134858. 4

Question Number : 13 Question Id : 86435110657 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

NLP का मशीनी अनुवाद से क्या तात्पर्य है?

1. संख्यात्मक आंकड़े
2. प्राकृतिक भाषा संसाधन
3. राष्ट्रीय भाषा संसाधन
4. निरपेक्ष भाषा प्रक्रिया

Options :

- 86435134855. 1
- 86435134856. 2
- 86435134857. 3
- 86435134858. 4

Question Number : 14 Question Id : 86435110658 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Glossary of Administrative Terms has been prepared by:

1. Central Hindi Directorate
2. Central Hindi Institute
3. Commission for Scientific and Technical Terminology
4. National Council of Education, Research & Training

Options :

- 86435134859. 1
- 86435134860. 2
- 86435134861. 3
- 86435134862. 4

Question Number : 14 Question Id : 86435110658 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रशासनिक शब्दावली किसने निर्मित की है?

1. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
2. केन्द्रीय हिंदी संस्थान
3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

Options :

- 86435134859. 1
- 86435134860. 2
- 86435134861. 3
- 86435134862. 4

Question Number : 15 Question Id : 86435110659 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Administrative Translation, Office Memorandum means:

1. Office letter
2. Notification
3. Inter-Ministerial Correspondence
4. Demi Official Letter

Options :

- 86435134863. 1
- 86435134864. 2
- 86435134865. 3
- 86435134866. 4

Question Number : 15 Question Id : 86435110659 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रशासनिक अनुवाद में Office Memorandum से तात्पर्य है-

1. कार्यालय पत्र
2. अधिसूचना
3. अंतर मंत्रालयी पत्राचार
4. अर्धशासकीय पत्र

Options :

- 86435134863. 1
- 86435134864. 2
- 86435134865. 3
- 86435134866. 4

Question Number : 16 Question Id : 86435110660 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In relation to Translation, the starred questions relate to:

1. Parliamentary questions
2. Legal
3. Administrative
4. Ministerial

Options :

- 86435134867. 1
- 86435134868. 2
- 86435134869. 3
- 86435134870. 4

Question Number : 16 Question Id : 86435110660 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अनुवाद की दृष्टि से तारांकित प्रश्नों का संबंध किससे है?

1. संसदीय प्रश्न
2. विधि
3. प्रशासन
4. मंत्रालय

Options :

- 86435134867. 1
- 86435134868. 2
- 86435134869. 3
- 86435134870. 4

Question Number : 17 Question Id : 86435110661 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Hindi, the parliamentary phrase 'Table of the house' means:

1. संसद का मेज
2. सभापति पटल
3. सदन पटल
4. केंद्रीय पटल

Options :

86435134871. 1
86435134872. 2
86435134873. 3
86435134874. 4

Question Number : 17 Question Id : 86435110661 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

संसदीय अभिव्यक्ति 'Table of the House' का हिंदी अनुवाद होगा-

1. संसद का मेज
2. सभापति पटल
3. सदन पटल
4. केंद्रीय पटल

Options :

86435134871. 1
86435134872. 2
86435134873. 3
86435134874. 4

Question Number : 18 Question Id : 86435110662 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which translation form, the main focus is given on un-ambiguity of meaning?

1. Legal
2. Parliamentary
3. Literary
4. Trade and Commerce

Options :

86435134875. 1
86435134876. 2
86435134877. 3
86435134878. 4

Question Number : 18 Question Id : 86435110662 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'अर्थ की एकात्मकता' पर सर्वाधिक बल किस प्रकार के अनुवाद की विशेषता है?

1. विधि
2. संसदीय
3. साहित्यिक
4. व्यापार वाणिज्य

Options :

86435134875. 1
86435134876. 2
86435134877. 3
86435134878. 4

Question Number : 19 Question Id : 86435110663 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The term accepted for legal Hindi Translation of 'Evidence' is:

1. अभिसाक्ष्य
2. परिसाक्ष्य
3. साक्ष्य
4. प्रमाण

Options :

86435134879. 1
86435134880. 2
86435134881. 3
86435134882. 4

Question Number : 19 Question Id : 86435110663 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'Evidence' के लिए विधि स्वीकृत हिन्दी शब्द है-

1. अभिसाक्ष्य
2. परिसाक्ष्य
3. साक्ष्य
4. प्रमाण

Options :

86435134879. 1
86435134880. 2
86435134881. 3
86435134882. 4

Question Number : 20 Question Id : 86435110664 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The nature of language of Trade and Commerce literature is:

1. Knowledge based
2. Literary
3. Mixed
4. Administrative

Options :

86435134883. 1
86435134884. 2
86435134885. 3
86435134886. 4

Question Number : 20 Question Id : 86435110664 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

व्यापार-वाणिज्य क्षेत्र की भाषा का स्वरूप-

1. ज्ञानप्रधान होता है
2. साहित्यिक होता है
3. मिश्रित होता है
4. प्रशासनिक होता है

Options :

86435134883. 1
86435134884. 2
86435134885. 3
86435134886. 4

MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr-2

Section Id :

864351534

Section Number :

2

Section type :

Offline

Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	10
Number of Questions to be attempted :	10
Section Marks :	30
Mark As Answered Required? :	Yes
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	864351578
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 21 Question Id : 86435110665 Question Type : SUBJECTIVE
Correct Marks : 3

Illuminate the main points of Translation process as propounded by Bathgate.

Question Number : 21 Question Id : 86435110665 Question Type : SUBJECTIVE
Correct Marks : 3

बाथगेट द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए।

Question Number : 22 Question Id : 86435110666 Question Type : SUBJECTIVE
Correct Marks : 3

Discuss the limitations of translating Idioms and Phrases.

Question Number : 22 Question Id : 86435110666 Question Type : SUBJECTIVE
Correct Marks : 3

लोकोक्ति-मुहावरों के अनुवाद की सीमाओं का स्वरूप बताइए।

Question Number : 23 Question Id : 86435110667 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

What are the bases of Translation Evaluation?

Question Number : 23 Question Id : 86435110667 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

अनुवाद मूल्यांकन के आधार कौन-कौन से हैं?

Question Number : 24 Question Id : 86435110668 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

What are the areas of Interpretation – निर्वचन?

Question Number : 24 Question Id : 86435110668 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

निर्वचन की आवश्यकता किन-किन क्षेत्रों में होती है।

Question Number : 25 Question Id : 86435110669 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Distinguish between Transcreation and Translation.

Question Number : 25 Question Id : 86435110669 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

अनुसृजन और अनुवाद में भेद स्पष्ट कीजिए।

Question Number : 26 Question Id : 86435110670 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Describe the meaning and nature of dubbing.

Question Number : 26 Question Id : 86435110670 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

डबिंग के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

Question Number : 27 Question Id : 86435110671 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Explain Direct Machine Translation Method.

Question Number : 27 Question Id : 86435110671 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति क्या है?

Question Number : 28 Question Id : 86435110672 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Underline the peculiarities of Legal terminology.

Question Number : 28 Question Id : 86435110672 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

विधि संबंधी शब्दावली की विशेषताएं बताइए।

Question Number : 29 Question Id : 86435110673 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Discuss the relationship of Translation and Education.

Question Number : 29 Question Id : 86435110673 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

शिक्षा और अनुवाद का संबंध बताइए।

Question Number : 30 Question Id : 86435110674 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

Describe the specificities of Banking Literature.

Question Number : 30 Question Id : 86435110674 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 3

बैंकिंग साहित्य का वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए।

MATS 2 Anuvaad Prakriya Evam Kshetr-3

Section Id :	864351535
Section Number :	3
Section type :	Offline
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	7
Number of Questions to be attempted :	5
Section Marks :	50
Mark As Answered Required? :	Yes
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	864351579
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 31 Question Id : 86435110675 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Discuss the Translation process model proposed by Nida.

Question Number : 31 Question Id : 86435110675 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

नायडा के अनुवाद-प्रक्रिया संबंधी प्रारूप की चर्चा कीजिए।

Question Number : 32 Question Id : 86435110676 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Explain Vetting and describe its stages.

Question Number : 32 Question Id : 86435110676 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

पुनरीक्षण की परिभाषा एवं स्तरों का वर्णन कीजिए।

Question Number : 33 Question Id : 86435110677 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Describe Gist translation and various steps of its process.

Question Number : 33 Question Id : 86435110677 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

सारानुवाद से क्या तात्पर्य है तथा इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन-कौन से हैं?

Question Number : 34 Question Id : 86435110678 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Discuss issues of NLP (Natural Language Processing) in relation to Machine Translation.

Question Number : 34 Question Id : 86435110678 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

प्राकृतिक भाषा संसाधन संबंधी मशीनी अनुवाद के मुद्दों पर विचार कीजिए।

Question Number : 35 Question Id : 86435110679 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Describe the salient features and types of Administrative Literature.

Question Number : 35 Question Id : 86435110679 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

प्रशासनिक साहित्य के वैशिष्ट्य एवं प्रकारों का परिचय दीजिए।

Question Number : 36 Question Id : 86435110680 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Highlight the need and method of Translation of Tourism Literature.

Question Number : 36 Question Id : 86435110680 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

पर्यटन साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता एवं प्रविधि पर प्रकाश डालिए।

Question Number : 37 Question Id : 86435110681 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

Explain the nature of Translation of Literature relating to Trade and Commerce Text with suitable examples.

Question Number : 37 Question Id : 86435110681 Question Type : SUBJECTIVE

Correct Marks : 10

वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद की प्रकृति को सोदाहरण समझाइए।